

# CLASS NOTES

कक्षा: छठवीं	शीर्षक: व्यावहारिक व्याकरण (श्रुतिसम भिन्नार्थक, अनेकार्थक, मुहावरे)
विषय: हिंदी व्याकरण	दिनांक: 28/10/2021

**निर्देश:** यह सामग्री केवल पढ़ने, समझने एवं याद करने हेतु दी गई है।  
दिए गए अभ्यास के अलावा पुस्तक से भी अभ्यास कार्य करें।

## श्रुतिसम भिन्नार्थक

'श्रुतिसम' अर्थात् सुनने में समान और 'भिन्नार्थक' अर्थात् भिन्न/अलग अर्थ रखने वाले। ऐसे शब्द, जो सुनने में समान लगते हैं परंतु जिनके अर्थ भिन्न होते हैं, श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते समय उच्चारण एवं वर्तनी की शुद्धता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द 1 से 8 तक

1. अंक - संख्या, गोद

अंग - हिस्सा, भाग

2. अचार - एक खाद्य पदार्थ

आचार - आचरण

3. अणु - कण

अनु - बाद

4. अनिल - हवा

अनल - आग

5. अन्न - अनाज

अन्य - दूसरा

6. अलि - भँवरा

अली - सखी, सहेली

7. अवधि - समय

अवधी - भाषा

8. अवलंब - सहारा

अवलंब - शीघ्र/बिना देर किए

## अनेकार्थक शब्द

'अनेकार्थक' शब्द 'अनेक' तथा 'अर्थक' दो शब्दों के मेल से बना है। अनेक अर्थात् बहुत सारे और 'अर्थक' अर्थात् अर्थ रखने वाला। अतः अनेकार्थक का अर्थ हुआ बहुत सारे अर्थ रखने/बताने वाला।

**परिभाषा - एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं।**

अनेकार्थक शब्द 1 से 7 तक

शब्द अर्थ

1. अंक संख्या, गोद, नाटक का खंड या सर्ग

- |          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 2. अक्षर | वर्ण, गगन, ब्रह्मा, आत्मा         |
| 3. अज    | बकरा, दशरथ के पिता                |
| 4. अर्थ  | धन, मतलब, प्रयोजन                 |
| 5. अशोक  | शोक रहित, सम्राट अशोक, अशोक वृक्ष |
| 6. कनक   | सोना, धतूरा, गेहूँ                |
| 7. कर    | हाथ, टैक्स, सूँड़, किरण           |

## मुहावरे

**परिभाषा -** वाक्य का एक ऐसा अंश जो सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे, मुहावरा कहलाता है। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली सुंदर एवं सशक्त बनाते हैं। ये अपने शब्दार्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। ये स्वयं वाक्य न होकर वाक्य का एक अंश अर्थात् वाक्यांश होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है।

मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरे में किसी शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

मुहावरे 1 से 6 तक

1. अक्ल पर पत्थर पड़ना

अर्थ - बुद्धि भ्रष्ट होना

वाक्य - उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं इसलिए समझाने पर भी वह नहीं समझ रहा है।

2. अपना-सा मुँह लेकर रह जाना

अर्थ - शर्मिंदा होना

वाक्य - परीक्षा से पहले तो रमेश खूब शोर मचा रहा था परंतु परिणाम आते ही अपना-सा मुँह लेकर रह गया।

3. अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना

अर्थ - अपनी प्रशंसा आप करना

वाक्य - मनुष्य को अपने मुँह मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए। इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है।

4. आँखें खुलना

अर्थ - होश आना

वाक्य - ज़िंदगी में ठोकरें खाने से ही इंसान की आँखें खुलती हैं।

5. आँखें बिछाना

अर्थ - बहुत आदर सत्कार करना

वाक्य - भारतीय अपने मेहमानों के लिए आँखें बिछा देते हैं।

6. आँखों से अंगारे बरसना

अर्थ - बहुत क्रोधित होना

वाक्य - मेघनाद की मृत्यु की खबर सुनते ही रावण की आँखों से अंगारे बरसने लगे।

## अभ्यास (व्यावहारिक व्याकरण)

**प्रश्न 1** निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके दुबारा लिखिए-

अ. आज बहुत गरम अनल बह रही है।

शुद्ध वाक्य - आज बहुत गरम अनिल बह रही है।

ब. सारा अन्य इकट्ठा कर गोदाम में रखो।

शुद्ध वाक्य - सारा अन्न इकट्ठा कर गोदाम में रखो।

### प्रश्न2 निम्नलिखित शब्दों के दो-दो अर्थ लिखिए-

अ. अक्षर

उत्तर- वर्ण, ब्रह्मा

ब. कनक

उत्तर- सोना, धतूरा

स. अशोक

उत्तर- शोक रहित, अशोक वृक्ष

### प्रश्न3 निम्नलिखित शब्दों के अनुचित अर्थ वाले शब्द छाँटकर लिखिए-

अ. अंक - संख्या, गोद, नाटक का एक खंड, बकरा

उत्तर - बकरा

ब. कर - हाथ, टैक्स, समय, किरण

उत्तर - समय

स. अर्थ - धन, धतूरा, मतलब, प्रयोजन

उत्तर - धतूरा

### प्रश्न4 मुहावरा किसे कहते हैं?

उत्तर- वाक्य का एक ऐसा अंश जो सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे, मुहावरा कहलाता है।

### प्रश्न5 निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरों से कीजिए-

अ. मनुष्य को ----- नहीं बनना चाहिए। इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है।

उत्तर अपने मुँह मियाँ मिट्टू

ब. मेघनाद की मृत्यु की खबर सुनते ही रावण की ----- लगे।

उत्तर आँखों से अंगारे बरसने

### प्रश्न6 मुहावरों का मिलान उनके उचित अर्थ के साथ कीजिए।

मुहावरा	अर्थ
1. अक्ल पर पत्थर पड़ना	बहुत आदर सत्कार करना
2. अपना-सा मुँह लेकर रह जाना	बहुत क्रोधित होना
3. अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना	होश आना
4. आँखें खुलना	अपनी प्रशंसा आप करना
5. आँखें बिछाना	शर्मिदा होना
6. आँखों से अंगारे बरसना	बुद्धि भ्रष्ट होना

उत्तर 1. बुद्धि भ्रष्ट होना

2.शर्मिदा होना

3.अपनी प्रशंसा आप करना

4.होश आना

5.बहुत आदर-सत्कार करना

6.बहुत क्रोधित होना